

July 09, 2021

The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – [532541]

The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Scrip code – [COFORGE]

#### Subject: Newspaper publication – Intimation of loss of Share certificate

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of loss of share certificate" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For Coforge Limited

(Erstwhile NIIT Technologies Limited)

Lalit Kumar Sharma Company Secretary & Legal Counsel

Encl: as above

### **PUBLIC NOTICE**

I, the Proposed Holder given that below mentioned Share Certificates of HeidelbergCement India Ltd. has been reported lost .Any persons having objections to the issue of duplicate share certificates in respect of the said shares should communicate to the Company or Registrars with necessary proof within 15 days from the date of this Notice, failing which the Company will proceed to consider the application for issue of duplicate share certificates in our favour and thereafter any objection/s in this matter will not be entertained.

FOLIO NO.	CERT NO.	DIST. NO. FROM	DIST.NO. TO	SHARES	NAME OF THE SHARE HOLDERS
N002700	20183 26924 34961 45288 166572	311001 1622956 2157270 2871778 14004234	311025 1622980 2157294 2871802 14004333	25 25 25	GOPAL RAMNATH NAIK (Deceased) I / w GAYATHRI GOPAL NAIK

Place: Mumba Date: 09-07-2021

**GAYATHRI GOPAL NAIK** 

Sd/-

### इनसिल्को लिमिटेड

(25-06-2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन) . सीआईएन : L34102UP1988PLC010141

पंजी. कार्यालय : ए-5, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरौला, जिला- अमरोहा, यूपी. - 24422: फोन : 09837923893, फैक्स : (05924) 252348, ईमेल आईडी : Insilco@evonik.com, वेबसाइट :www.insilcoindia.cor 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा

### बही बंदी इत्यादि की सूचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि :

कम्पनी की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक (33वीं एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी ला प्राचना जी उंजा पानिय साना व पर्वे प्रज्ञा है। प्राचना जी और तदधीन विरोधित नियमां तथा सेबी (सूचीयन वायिव और फ्रटीकरण अपेक्षाएं) विनयमावर्ति 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/202 तथा 02/2021 कमानुसार दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 202 ('एमसीए सर्कुलर्स') और भारतीय प्रतिमूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/ एचओ/ सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/ पी/ 2020/79 दिनाकित 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 (सेबी सकुंतसरें) के अनुपालन सोगवार, 2 अगस्त, 2021 को अप. 02.30 आईएसटी बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी')/अन

सोगवार, 2 अगरत, 2021 को अस, 02.30 आईएसटी बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्संग ("वीसी") /अन्य ऑडियो विजुअल साचनों ("ओएवीएम") सुविधा के माच्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम के आयोजन की सुवना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष कगर्य निष्पादित किए जाएगे। एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, 33वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीवित वित्तीय विवरण शामिल हैं, उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा चुकी हैं, जिनका ई-मेल पता कम्पनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को 33वीं एजीएम की सूचना वार्षा वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 8 जुलाई, 2021 को पूर्ण किया जा चुका है। सदस्यों को 33वीं एजीएम की सूचना की मीतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर, रसर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है। वे सत्स्य जो विच्छेदन विधि 26 जुलाई, 2021 को मीतिक या अमीतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, 33वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष व्यवसाय के संबंध में अपना वोट नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिपिटर (लिपिटर (लिपिटर (लिपिटर (लिपिटर (लिपिटर (लिपिटर प्रत्योत स्वचारी को की कि

हिषाजिररा तिमान्द्र (राम्रसकार्य) य इराव्यामान्य जाना स्वाचन (राम्राच र नावन) र जाना स्वाचन स्वाचन

रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021 को पूर्वा. 09.00 बजे आईएसटी आरंभ होगी. रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 01 अगस्त, 2021 को अप. 05.00 बजे आईएसटी समाप्त होगी, रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अथवा 33वीं एजीएम में ई—वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने अधिकार निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि 26 जुलाई, 2021 है,

01 अगस्त, 2021 को अप. 05.00 बजे के बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रि

भौतिक रूप में शेमरों का भारक कोर्र लाकित तथा गैर-लाकितात शेमरभारक जो र्र-मेल टारा यन भेजी जाने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेद निष्ठि अर्थात 26 जुलाई, 2021 को शेयर घारक है, evoling@nsdl.co.in पर अनुरोध मेजकर लॉगइ-आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल ग् पहले से पंजीकृत है, तब आप मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग अपना वोट डालने के लिए बढ़त ने बजावूत है, तब जान माजूदा पूछा लाइडा तीय भाषाय अंग प्रवान जनमें ना दे डालों में कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ष भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपनब "Forgot User Details/ Password" अथवा "Physical User Reset Password" विकल्प का प्रयोग कर अपना गासवर्ड पुन. बना सकते हैं अथवा टोलफी नंबर 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 प कॉल कर सकते हैं। डीमैट रूप में प्रतिभृतियों के धारक व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो सूचन मेजी जाने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करते हैं और कम्पनी का सदस्य बनते हैं और विच्छेदर तिथि अर्थात 26 जुलाई, 2021 को शेयर धारक हैं, वे एजीएम की सूचना में "Access to NSDL e-Votin

system" के तहत वर्णित कदमों का अनुसरण करें। सदस्यगण नोट करें कि : क) उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ; खा ई—वोटिंग हेतु सुविध 33वीं एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा वे सदस्य, जो वीसी /ओएवीएम सुविधा वे माध्यम से 33वीं एजीएम में उपस्थित हैं. जिन्होंने प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नर्ह नाव्यन से 33म (अपिन ने जनस्वत्र है, जिन्होंने अर्पायों कर गाँच है ज्यार है प्राप्त करने हेतु प्रतिबंधित नहीं है, 33वीं एजीएम में ई—वोटिंग सिस्टम हारा वोट डालं हेतु ग्राह्म होंगे। ग) जिन सदस्यों ने 33वीं एजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा डाल दिया है, वीसी / ओएबीएम सुविधा के माध्यम से 33वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु 33वीं एजीए के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम द्वारा दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे ; तथा घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम विच्छेदन की तिथि को सदस्य पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनरक्षित लाभार्थी स्वार्म जिसका निर्माण के आप के स्थित हैं—वोटिंग की सुविधा का लाभ प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा व माध्यम से 33वीं एजीएम में भाग लेने तथा 33वीं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग का हकदार होगा।

(viii) डीमैटीरियलाइज्ड रूप, गौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पत पंजीबद्ध नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोटली वोटिंग का तरीका 33वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है 33वीं एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com तथा बीएसइ लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। 33वीं एजीएम की सूचना एनएसडीए की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है ; तथा वे सदस्य, जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, जिनका ई—मेल पता कम्पनी में पंजीबद्ध नहीं है,

अपना ई-मेल पता अपने नाम, फोलियो नंबर, पूर्ण पता, ई-मेल पता जो पंजीकृत किया जाना है के वर्णन युक्त हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, पैन कार्ड तथा सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन हेतु किसी दस्तावेज (जैसेकि ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) की स्कैन की गई रव—सत्यापित प्रति के साथ, ई—मेल द्वारा कम्पनी के ई—मेल पता insilco@evonik.com पर भेजक पंजीबद्ध करवा सकते हैं। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपना ई—मेल पता अपने डिपॉजिटर्र पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन करवा सकते हैं। यदि कम्पनी / आरटीए के पास पहले से पंजीबद्ध ई-मेर आईडी में कोई परिवर्तन किया गया है, तो सदस्यों से ऐसे किसी भी परिवर्तन सूचना अतिशीघ, भौतिव रूप में शेयरों के मामले में कम्पनी को कम्पनी के ई—मेल पता insilco@evonik.com पर औ र ज ने राय में भी तो में , जर्मना की केंग्या के हैं नाल पता Inside@evolink.com पर ज इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेवारों के मामले में, डीपी'ज को दे ने का अनुरोध किया जाता है। (xi) किसी संदेह की स्थित में, आप वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर "डाउनलोड सेक्शन"

अत्यांत उपलब्ध फिक्बेटली आस्वड क्षेत्रक्षराम् (एफएवर्यूज) तथा ई—वोटिंग यूजर मैनुअन देख सकते हैं अथवा टोलफ्री नंबर 1800–1020–990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा सुश्री पत्लवी म्हात्रे, प्रबंधक अथवा सुश्री सोर्न सिंह, सहायक प्रबंधक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से नामित ई-मेल आईर्ड – evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा sonis@nsdl.co.in अथवा फोन नंबर +91-22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वार वोटिंग के साथ संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे। सदस्यगण कम्पनी के ई–मेल परे insilco@evonik.com पर कम्पनी सेक्रेटरी को भी लिख सकते हैं।

कम्पनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर अंतरण बहियां मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 से सोमवार, 2 अगस्त 2021 तक, (दोनों दिनों सहित) वार्षिक बंदी के लिए बंद रहेंगी। क बंदी के लिए बंद रहेंगी। वास्ते इनसिल्को लिमिटेड (25—06—2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन)

खबरें

पहला पल्ला क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम देश और आपके प्रदेश की सबसे बड़ी बिज़नेस ख़बरें शेयरों और क्षेत्रीय मंडियों के भाव प्रमुख शेयरों और विभिन्न राज्यों की मंडियों के जिस भाव कंपनी और जिंस समाचार कंपनियों, स्टार्ट-अप और जिंस मार्केट पर नज़र, सोमवार से शनिवार

विविध समाचार

राजनीतिक और आर्थिक समाचार

मनोरंजन, रःवारःथ्य, ब्रांड, खेल. टेक्नोलॉजी और व्यक्तित्व की बातें व्यापार गोष्ठी हर सोमवार एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दे पर पाठकों और

अन्य साप्ताहिक पृष्ठ हर सोमवार, 'स्मार्ट इन्वेस्टर'

और आपका निवेश

- अपनी प्रति के लिए-

SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड

जो बढ़ाए

की रफ़्तार

आपकी तरक्की

तिथि : 08–07–2021 स्थान : नई दिल्ली

स्वाति सुरहेतिया कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी

हस्ता /

### पूर्वोत्तर रेलवे

(ई–निविदा सूचना) राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से उप पां.इंजी. / वर्क्स, वास्ते मुख्य कारखाना प्रबन्ध<sup>द</sup> यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिये आनलाईन (ई—टेण्डरिंग) के माध्य

से खुली ई–निविदा आमंत्रित की जाती है:–

**हम सं.:-1,** ई—निविदा सूचना सं.: आई.आर.पी एस. टेण्डर नं.-08-जीकेपी-एमडब्ल्यूएस-2021 22, निविदा कार्य का विवरणः रिपेयरिंग वक् ऑफ 792 नं. ऐन्टी रोल बार असेंबली विथ 01 . डेवलपमेंट ऑफ ऐन्टी रोल बार ब्रैकेट ग्सेंबली वर्क स्टेशन ऐट बोगी शॉप इन मेकेनिकल वर्कशॉप, गोरखपुर। अनुमानित लागत ₹ 48,41,718/-, धरोहर राशिः ₹ 0.00, निविद नापन की तिथि एवं अवधिः 09-08-2021, 11:00 बजे, निविदा प्रपत्र का मूल्यः ₹ 0.00, संविदा की अविधः 12 माह। निविदा की प्रकृतिः खुली ई–निविदा। **क्रम सं:-2,** ई–निविदा सूचना सं. आई.आर.पी.एस. टेण्डर नं.-13-जीकेपी-एम डब्ल्यूएस-2021-22, निविदा कार्य का विवरण वदेन फ्लोरिंग ऑफ 1243230 स्क्वायर फीर रिया ऑफ 30 इन्सपेक्शन कोचेज इन . नेकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर। अनुमानित नागतः ₹ 24,07,887.86, धरोहर राशिः ₹ 0.00 नेविदा समापन की तिथि एवं अवधि 09-08-2021, 11:00 बजे, निविदा प्रपत्र का नूल्यः ₹ 0.00, संविदा की अवधिः 24 माह नेविदा की प्रकृतिः खुली ई–निविदा।

इस ई-निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा ग गग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट संख्य vww.ireps.gov.in पर देखें।

ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें।

जाधि / यांत्रिक–15 यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. नं.: 09794845955 पर एसएमएस करें।

### श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड SHRIRAM City

पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. 123, अंगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई–600 001 **शाखा कार्यालय :** 245-246, दुसरा तल, ओम करम टॉवर, हनुमान नगर—डी ामरापली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर 302021 **वेबसाइट : www.shriramcity.in** 

### भौतिक कब्जा सूचना

जैसा कि श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (एससीयूएफ) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नेयमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित तालिका में उल्लेखित उधारकर्ता(ओं) को मांग सूचना जारी की थी जिसमें उल्लेखित राशि को चुकता करने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद द्वारा उधारकर्ताओं और आम जनता को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) की उपधारा 8 के तहत उसे प्रयोग से नीचे वर्णित सम्पत्ति का **भौतिक कब्जा दिनांक 6 और 7 जुलाई–202 1** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर पर सर्व सामान्य को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि सम्पत्ति से कोई लेन–देन नहीं करें और सम्पत्ति के स 1थ कोई भी लेन–देन जैसा की निम्न वर्णित है ब्याज का उल्लेख किया गया है के साथ श्रीराम सिटी युनियन <del>ठाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।</del>

उधारकर्ता का नाम और पता	मांग सूचना	सम्पत्ति का विवरण
ऋण अनुबंध संख्या. JODP2TF1610070001  1. श्रीमती बीना अग्रवाल 15/258 सी.एच.बी, जोधपुर —342001  2. श्री नवीन प्रमोद अग्रवाल पता: पी सं. 92 दमानी कॉलोनी पीछे की ओर पेट्रोल पंप, बॉम्बे मोरोट चौ राहा, जोधपुर, राजस्थान— 342001  भौतिक कब्जे की दिनांक: 06–07.2021  एनपीए दिनांक: 04–07–2018	मांग सूचना दिनांक 07–08–2020 रु. 1,14,10,647/- (रुपये एक करोड़ चौदह लाख दस हजार छह सौ सैंतालीस मात्र) मध्यस्थ निर्णय राशि पुरस्कार दिनांकित 02–04–2019 के अनुसार भविष्य के ब्याज और शुल्क के साथ नियम और शतों के	भू मि / फ्लै ट धारक मकान सं. 15/258, चौपासानी हाउसिंग बोर्ड स्कीम स्थित, जोधपुर पर स्थित मापक 120 वर्ग मीटर विस्तारित का संपूर्ण व सर्वां गीण भाग, सीमांकन विवरण:— उत्तर :— मकान सं. 15/257 दक्षिण:— मकान सं. 15/259 पूर्व:—अन्य का मकान परिचन:—सङ्क
ऋण अनुबंध संख्या. JODP2TF1601250001  1. मेसर्स नाकोड़ा रेसटॉरेंट  95 जांडेजी का नोहरा, जसवंत सराय, रेल्वे स्टेशन जोधपुर— 342001  2. श्री जगदीश श्याम सिंह राव  3. श्री कांता श्याम राव पता: मेड़ती गेट के अंदर, अपर का बास की गली जोधपुर—342001  भौतिक कब्जे की दिनांक: 07—07.2021  एनपीए दिनांक: 03—10—2018	मांग सूचना दिनांक 17–08–2020 रु. 67,16,126/- (रुपये सड़द लाख सोलह हजार एक सौ छब्बीस मात्र) मध्यस्थ निर्णय राशि पुरस्कार दिनांकित 13 मई 2019 के अनुसार भविष्य के ब्याज और शुल्क के साथ नियम और शर्तों के अनुसार	मूमि/फ्लैट धारक स्थित प्लॉट सं. डी– 38, खसरा सं. 136/ 1, ग्राम तानावाडा, तहसील लूणी और जिला जोधपुर—मापक 480 वर्ग मीटर विस्तारित का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग, सीमांकन विवरण:— उत्तर:— अन्य की संपत्ति दक्षिण:—पी सं. डी–39 पूर्व:— पी सं. डी–49 औरडी–50 पश्चिम:— सड़क

उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाया जा सके। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 09.07.2021

स्थान : दिल्ली, तिथि : 09.07.2021

### **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the following Authorised Person is/are no longer affiliated a Authorised Person (AP) of M/s. PROFITMART SECURITIES PVT.LTD. Member of MCX,NSE,BSE having the registered office as given below with effect from 01/06/2021. Any person dealing with below mentioned Authorised Person should do so at their own risk. M/s PROFITMART SECURITIES PVT.LTD., shall not be liable for any dealing with them

Sr. No.	Name of the Authorised Person
1	BINCY BABU
2	ASEEM RAMESH CHAVAN (Visionary Advisory)
3	M/s PLANIFY CONSULTANCY INDIA PRIVATE LIMITED

Reasons: Accepting deposits, Non-Compliance & breach of company policy In case of any queries, investors are requested to inform M/s. PROFITMART SECURITIES  $PVT.LTD.\ at the following address within 15\,days\,from\,the\,date\,of\,issuing\,this\,notice:$ M/s. PROFITMART SECURITIES PVT.LTD. OFFICE NO .328 CHAMPAK LAL INDUSTRIA ESTATE NEAR MTNL OFFICE SION CICRCLE, SION, MUMBAI - 400022. Emai support@profitmart.in

PROFITMART SECURITIES PVT. LTD.

निविदा जमा करने निविदा खोलने धरोहर

प्रधान प्रबन्धक

# उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. इकाईः पिपराईच (गोरखपुर) २७३१५२

अल्पकालिक निविदा सूचना

इस मिल के सत्र 2021-22 के लिए निम्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दिनांक 15.07.2021 को बन्द लिफाफे मे ⁄ईमेल के द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है।

		का आन्तम ।ताथ		વનસાસ			
1.	पैकिंग एण्ड ज्वाइटिंग	15.07.2021	16.07.2021	3,000.00			
	टेण्डर फार्म फीस रु. 354/- (GST सहित) तथा धरोहर धनराशि मिल के कोष मे नगद						
अथव	ा मिल के पंजाब नेशनल कैं	b शाखा-पिपराईच के खाता स	<del>र</del> ंख्या 082600210	0001471,			
IFSC	CODE PUNBO08260	0 मे जमा करके कार्यालय	। कार्य दिवस मे र	टेण्डर फार्म			
कार्या	लय से या ईमेल के द्वारा	प्राप्त किया जा सकता है।	किसी भी एक निर्व	वेदा अथवा			
	समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा। संपर्क						
अधि	अधिकारी मुख्य अभियंता मो. 6389025602, क्रय प्रभारी मो. 6389025587,						
E-Ma	E-Mail: upsscdclpipraich2018@gamil.com						

## Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Ph: 91 (11) 41029297 Fax: 91 (11) 26414900

Email: investors@coforgetech.com Website: https://www.coforgetech.com NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company

Folio No.	Name of the Registered holder	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
643	DIMPLE A SINGH JT1 AMARJIT SINGH	652	10701245 - 10701412	168
644	AMARJIT SINGH JT1 DIMPLE A SINGH	653	10701413 - 10701749	337

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner

For and on behalf of Coforge Limited (erstwhile NIIT Technologies Limited) Dated : July 08, 2021 Lalit Kumar Sharma Company Secretary & Legal Counsel

### RELIANCE HOME रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शाखा कार्यालय : ए-13/1, ब्लाक-ए, 6वां तल, सिनर्जी टॉवर, सेक्टर-62, नोएडा-201301

पंजी. कार्यालयः 11वां तल, द रूबी, प्लाट नं. 29, रूबी मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग दादर (पश्चिम), मुम्बई 400 028

### कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार) जैसे कि रिलाइस होम फाइनेंस लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तिय

के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कर्जदार(ओं) / सह-कर्जदार(ओं) (1) निपुण गुप्ता, (2) अनुराग गुप्ता, समी स्थित 100, शिवालिक डुपलैक्स फ्लैट, सेक्टर-35, नोएडा-201301 सभी यहाँ भीः प्लाट नं. जीएफ 03, टावर नं. 14, फ्लैट नं (14, जीएफ–1), भूतल, एटीएस ग्रीन्स पैराडिसो सेक्टर-CHI-4 जिला गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा-201308 को मांग सूचना दिनांकित 21 अगस्त, 2020 जारी की थी जिसमें सूचनाओं में उल्लिखित दिनांक 12 अगस्त, 2020 (ऋण खाता संख्या RHHLDEL000006522) को राशि रू 4,90,74,911 / – (रूपये चार करोड़ नब्बह लाख चौहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) को उक्त सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदार(ओं) / सह–कर्जदार(ओं) द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार(ओं) / सह–कर्जदार(ओं) और जन सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का 7 जुलाई, 2021 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(ओं) / सह–कर्जदार(ओं) और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन दिनांक 6 जुलाई 2021 को राशि **रू 5,22,16,989/— (रूपये पांच करोड़ बाईस लाख सोलह हजार नौ** सौ नवासी मात्र) और इस पर ब्याज के लिए रिलांइस होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रमार के अधीन होगा। प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समायविध में सरफासी अधिनियम की धारा–13(8) के प्रावधानों में कर्जदार / सह–कर्जदारों / बंधककर्ता(ओं) का ध्यान आकर्षित किया

अचल सम्पत्ति का विवरण प्लाट नं. जीएफ–03, टावर नं.14, फ्लैट नं. (14, जीएफ–1), भूतल, एटीएस ग्रीन्स पैराडिसो सेक्टर-CHI-4, जिला गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा-201308 में स्थित सम्पत्ति के समस्त भाग एवं खंड

हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी स्थान : ग्रेटर नोएडा रिलाइंस होम फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 09 जुलाई, 2021

## रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. जीकृत कार्यालय : पी-14 45/90, पी-ब्लॉक, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

. केन्द्रीय कार्यालय : प्रथम तल, प्रायस ग्लोबल टॉवर, ए-3, 4, 5, सेक्टर-125, नोएडा-201301, दूरभाष : +91 120 3391000

RELIGARE FOM वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूच-

धारा	।रा 13(2) के तहत मांग सूचना निगत को है। उसका विषय सामग्रा वहा है कि आपने मूलधन ब्याज आदि को किस्ता के भुगतान में चूक का है। बकाया राश निम्नालाखत है :						
क्र.	कर्जदार∕सह-	ऋण खाता संख्या	13(2)	ग्रहण की	13(2) अधिनियम	पत्र व्यवहार का पता	बंधक सम्पत्ति
सं.	कर्जदार का नाम		सूचना की	गयी ऋण	सूचना के अनुसार मांग		
			तिथि	राशि	राशि		
1	1. करमवीर	XMHDLXM	21.05.2021	₹.	रु. 7,82,741.94/−		फ्लैट सं. एफएफ-2, एल.आई.जी. प्रथम तल छत के अधिकार रहित,
	मुंशीरा पुत्र	00074396		7,00,000/-		सादतपुर, दिल्ली-110094	आवासीय प्लॉट खसरा नं. 353, क्षेत्रफल माप 30.19 वर्ग मीटर अर्थात
	मुनीष राम	(आवेदन आईडी				पता 2. फ्लैट नं. एफएफ-2, एल.आई.जी. प्रथम	325 वर्ग फीट, ग्राम सादुल्लाबाद परगना एवं तहसील लोनी, जिला
	2. सुमन करमवीर	659604)			एवं चौरानबे पैसे मात्र)	तल, खसरा नं. 353, ग्राम सादुल्लाबाद, परगना	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण भाग।
						एवं तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	
2	1. प्रियंका सिंह	XMHDLXM	21.05.2021	₹.	रु. 9,43,193.10/−	पता 1. निजी यूनिट नं. 403, तीसरी मंजिल,	बिल्ट अप तृतीय मंजिल, निजी यूनिट सं. 403, छत के अधिकार रहित,
	पुत्र राम परमार	00109227		8,00,000/-		आबादी लाल डोरा ग्राम सतबाड़ी, तहसील हौज	माप 33.34 वर्ग मीटर अर्थात 40 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग, एक बेडरूम,
	2. जयराम रघुनाथ	(आवेदन आईडी			हजार एक सौ तिरानबे	खास, नई दिल्ली	एक ड्राइंग रूम सह डाइनिंग रूम, अटैच्ड एक किचन, एक टॉयलेट सह
	सिंह	698112)			एवं दस पैसे मात्र)		बाथरूम से निर्मित, सात ही उससे सम्बद्ध सुविधाएँ अर्थात टी.वी. एन्टीना
							इंस्टाल/निरीक्षण/मरम्मत करने का अधिकार तथा ओवरहोड वाटर टैंक टॉप
						मेहरौली, दक्षिणी दिल्ली–दिल्ली–110034	फ्लोर पर, टेरेस एवं नीचे से ऊर आने-जाने के लिए कॉमन पैसेज तथा
							स्टेयरकेस के प्रयोग का अधिकार, साथ ही पार्किंग एरिया में एक कॉमन
							स्कूटर पार्किंग, सम्पत्ति सं. ई-1 का भाग, खसरा नं. 40 में से, साथ ही
							निहित भूमि में अविभाजित एवं अविभाज्य आनुपातिक अधिकार, इसकी
							माप 8.34 वर्ग मीटर, आबादी लाल डोरा ग्राम सतबाड़ी, तहसील हौज
							खास, नई दिल्ली में स्थित।
3	1. शशि सैनी पुत्र	MHDLXM	21.05.2021	₹.	₹.		आवासीय फ्री होल्ट बिल्ट अप फ्लैट नं. 103, अपर ग्राउण्ड फ्लोर का
	शिव चरण सैनी	00075533		19,00,000/-	24,64,272.36/-		सम्पूर्ण भाग, इसका सुपर एरिया 700 वर्ग फीट(लगभग), अर्थात 65.02
	2. दत्तात्रेय	(आवेदन आईडी			(रुपये चौबीस लाख	दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-	वर्ग मीटर, 2 बीएचके, एक ड्राइंग डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो टॉयलेट
	तुकाराम मोरे	663533)			चौंसठ हजार दो सौ	201304	सह बाथरूम, एक किचन (छत के अधिकार रहित) रेजीडेंसी, ग्राम-भंगेल,
					बहत्तर एवं छत्तीस पैसे		बेगमपुर, तहसील दादरी, जिला, कथित भवन ''हिमालयन आईटी''
					मात्र)		रेजीडेंसी के नाम से, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, उनके खाता सं. 00127
						भंगेल, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201304	(शून्य शून्य एक दो सात) खसरा नं. 73म (सात तीन म) के माध्यम से,
							सीमाएँ : पूर्व : साइट प्लान के अनुसार, पश्चिम : साइट प्लान के अनुसार,
	_						उत्तर : साइट प्लान के अनुसार, दक्षिण : साइट प्लान के अनुसार।
4	1. सुमित कुमार	XMHDLXM	21.05.2021	₹.	₹.		आवासीय मकान नं. 623 (684/57), उत्तरी ओर का आधा भाग, 50
	पुत्र वीरन सिंह	00075347		12,00,000/-	12,97,015.33/-	प्रदेश-201001.	वर्ग गज, 41.81 वर्ग मीटर, माप क्षेत्रफल 100 वर्ग गज में से, उत्तरी
	2. धीर सिंह	(आवेदन आईडी			(रुपये बारह लाख		ओर का आधा हिस्सा का सम्पूर्ण भाग, मालीवाड़ा, गाजियाबाद, तहसील
		660455)					एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, तथा सीमाएँ : पूर्व : श्री
					तैंतीस पैसे मात्र)	पता 3. दुकान नं. 60–61, सब्जी मंडी.	छिदा का मकान, पश्चिम : 4 फीट गली, उत्तर : श्री गजे सिंह का

हम रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से वित्तीय आरितयों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की

धारा 13(2) के तहत मांग सचना निर्मत की है। उसकी विषय सामग्री तही है कि आपने मलधन लगाज आदि की किस्तों के धारान में चक की है। बकारा गणि निम्नलियत है

पुनः कारणों सहित हमें विश्वास है कि आप मांग सूचना की सेवा से बच रह हैं। इसलिए यह मांग सूचना प्रकाशित है। एतद्वारा आप से इस मांग सूचना की प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर भावी ब्याज, लागत, आकस्मिक व्ययों, प्रभारों आदि सहित उपर्युक्त राशि रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर्नदार/रों की इस प्रतिभूत आस्तियों के कब्जा लेने सहित सभी या किसी या एक या एक से अधिक प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी प्रावधान के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगा। इसके अलावा आपको उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय/पट्टे या किसी अन्य विधि से हस्तान्तरित करने के लिए कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत निषिद्ध किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि अब आगे कोई मांग सूचना नहीं निर्गत की जायेगी।

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001

अधिकृत प्राधिकारी मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

माव अछजा, गातमधुक्ष नगर, उत्तर कर कि प्रार्ड वेद**िक हो हेतु सूचना** स्वर्ण **की प्रार्ड वेदि बिक्री हेतु सूचना** (द्वारा सभी संबंधितों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बैंक की अधोल्लिखत शाखाओं में निम्नलिखित ड ऋण खातों जोमोचन केलिए अतिदेय हैं और जो लगातार सूचनाओं के बावजूद अभी तक नियमित नहीं किए गए हैं इ. ऋण खातों जोमोचन केलिए अतिदेय हैं और जो लगातार सूचनाओं के बावजूद अभी तक नियमित नहीं किए गए हैं

77	64	. 0			न विक्रम के लिए रख जायन
	फेडरल	ा बैंक, भूतल, <b>र</b>	वसरा न	f. 334, जੀ.ਟੀ	. থাভ,
	गाँव अध	<b>े</b> जा, गौतमबुद्ध	नगर,	<b>उत्तर प्रदेश</b> —	203207
1.	22606400003537	राहुल कुमार	9.	22606400002463	मनोज कुमार
2.	22606400003610	हिमांशु नागर	10.	22606400003693	राहुल भाटी
3.	22606400004188	सुनील कुमार नागर	11.	22606400002471	मोहित नागर
4.	22606400004204	बॉबी नागर	12.	22606400002489	आकाश
5.	22606400003651	सुमित	13.	22606600000226	आकाश
6.	22606400003644	सत्य प्रकाश नागर	14.	22606400003719	सौरभ
7.	22606400004212	रिंदकू	15.	22606400003727	राजेन्द्र
	22606400002448	अशोक कुमार	16.	22606400003743	जितेन्द्र
70000		T 000 1		www	<del>-</del>

### <u>⋘KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED</u>

Regd office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 Corporate office: Kotak Infiniti, Bldg No 21, Infinity Park General AK Vaidya Marg, Malad (E), Mumbai 400 097 www.kotak.com

**AUCTION - NOTICE** 

That the below mentioned Borrower/s had availed gold loan facility against security of the gold ornaments/ items, as specified below. The Borrower/s defaulted in due repayment of he installments and outstanding dues and as a result of which the Bank was constrained to issue notices calling upon the Borrower/s to repay the outstanding amounts. However the Borrower/s has failed to repay/clear his outstanding dues thereby compelling the Bank ged in favour of the Bank

Apppi	Apac/ Account	Borrower Name	State	Location	Branch	Gr we
GI N	No	SHEKH NIRALE	DEI HI	DELHI	DARIYAGANJ	(In
GLN	1920409	APURV JAIN APURV JAIN	DELHI	DELHI DELHI	DARIYAGANJ DARIYAGANJ	0
GLN	1732442	KISHAN MAHTO KISHAN MAHTO	DELHI	DELHI DELHI	DARIYAGANJ DARIYAGANJ	24
GLN		SADIA BEGUM YASHPAL KHURANA		DELHI	DARIYAGANJ DARIYAGANJ	12
GLN	1845273	MANVVAR . MANOJ KUMAR	DELHI	DELHI DELHI	DARIYAGANJ DARIYAGANJ	23
GLN	1870408	KHYATI SINGHAL ANIRUDHA JENA	DELHI	DELHI DELHI	DWARKASEC5 DWARKASEC5	0
GLN		SAKUNTALA PANDA SAKUNTALA PANDA	DELHI	DELHI DELHI	DWARKASEC5 DWARKASEC5	3
GLN	1937262 1863580	DEVENDER SEHRAWAT JOGINDER SHARMA	DELHI DELHI	DELHI	DWARKASEC5 DWARKASEC5	32
GLN	1890890	JOGINDER SHARMA ASHOK KUMAR SHARMA	DELHI	DELHI DELHI	DWARKASEC5 GHAZIABAD	0
GLN	1739304	PANKAJ CHAUDHARY MAHMOOD .	DELHI	DELHI DELHI	GHAZIABAD GHAZIABAD	33
GLN		HARDEEP SINGH SHAINA .	DELHI	DELHI DELHI	GHAZIABAD GHAZIABAD	1:
GLN	1812268	AMRENDRA PRATAP SINGH AMAN PREET KAUR	DELHI		KALKAJI KALKAJI	27
GLN	1780275	AMAN PREET KAUR	DELHI	DELHI	KALKAJI	4
GLN	1814719	SHELENDER . NURUL HAQUE	DELHI	DELHI	KALKAJI KALKAJI	3
GLN	1857100 1911391	NURUL HAQUE	DELHI DELHI	DELHI	KALKAJI KALKAJI	5
GLN	1533950 1860313	REETESH BHARGAVA REETESH BHARGAVA	DELHI DELHI		LAZPAT NGR	20
GLN	1861497	REETESH BHARGAVA REETESH BHARGAVA	DELHI	DELHI DELHI	LAZPAT NGR LAZPAT NGR	10 8
GLN	1474832	REETESH BHARGAVA KANIZ FATMA SEEMA	DELHI	DELHI DELHI	LAZPAT NGR LAZPAT NGR	3
GLN	1278113	KANIZ FATMA SEEMA MANISH KUMAR SHARMA	DELHI DELHI	DELHI	LAZPAT NGR LAZPAT NGR	11
	1801901 1954472	RISHI SADH RISHI SADH	DELHI DELHI	DELHI DELHI	LAZPAT NGR LAZPAT NGR	15
		RISHI SADH AMIT KUMAR SINGH		DELHI DELHI	LAZPAT NGR LAZPAT NGR	8
GLN	1747324 1961449	TANUJ DIXIT SAURABH GAMBHIR		DELHI	LAZPAT NGR LAZPAT NGR	9
GLN	1871524 1872747	SANGEETA . SANGEETA .	DELHI	DELHI DELHI	LAZPAT NGR LAZPAT NGR	O C
GLN	1927631	NAVDEEP SINGH KHURANA TARANJEET SINGH	DELHI		LOKVIHAR LOKVIHAR	20
GLN		TARANJEET SINGH MOHINDER PARKASH		DELHI	LOKVIHAR	20.
		AHUJA	DELHI		LOKVIHAR MALVIYA NG	58
GLN	1573763 1277951	MANISH KUMAR	DELHI		MALVIYA NG MALVIYA NG	53 37
GLN	1949436	MANISH KUMAR SANDEEP KUMAR	DELHI	DELHI	MALVIYA NG MALVIYA NG	37
GLN	1459961	ANJEET SEJWAL SAMINA KHATOON	DELHI	DELHI	MALVIYA NG MALVIYA NG	2
GLN	1780927 1333802	JYOTI . PANKAJ KAPOOR	DELHI	DELHI	MALVIYA NG MAYURVIHAR	12
GLN		SUMAN CHAUDHARY NAUSHAD ALI	DELHI	DELHI DELHI	MAYURVIHAR MAYURVIHAR	7 10
GLN	1593359	VIKAS JAIN RAFAANA ANSARI	DELHI	DELHI DELHI		4
GLN	1874772	RAVINDER MOHAN RAO SHREE KANT			NFCOLONY NFCOLONY	0
		NEERAJ AWANA ABHISHEK NARAYAN		DELHI DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	32
GLN GLN	1472883 1260132	KAPIL GOEL RUCHIRA DHAR		DELHI DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	14 9
GLN	1775900	RAVINDER NAGAR SURENDER KUMAR	DELHI	DELHI DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	5 15
GLN	1425058	VINEET KUMAR SINGH SHOBHIT RAJ	DELHI	DELHI DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	19
GLN	1896987		DELHI		NOIDA S-18 NOIDA S-18	C
GLN	1401565	KULDEEP KUMAR GOPAL SINGH	DELHI	DELHI DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	2
GLN	1889804	PANKAJ KAPOOR DINESH KUMAR RAI	DELHI		NOIDA S-18 NOIDA S-18	3
GLN	1519946	JYOTI SHARMA JYOTI SHARMA	DELHI	DELHI DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	46
GLN	1808314	JYOTI SHARMA	DELHI	DELHI	NOIDA S-18	46
GLN		KARTAR SINGH	DELHI	DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	2
GLN	1872038	SUMIT AWANA VINEET BHARTIA		DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	2
GLN	1989958	VINEET BHARTIA VINEET BHARTIA	DELHI	DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	-
GLN	1153287	JAYVEER SINGH BRIJ BHUSHAN CHADHARY	DELHI		NOIDA S-18 PREET VIHA	22
GLN	1876253	BRIJ BHUSHAN CHADHARY JUGESH ARORA	DELHI	DELHI	PREET VIHA	45
GLN	1274630	FIROZ AHMED AZIMUDDIN KHAN	DELHI	DELHI	PREET VIHA PREET VIHA	13
GLN	1858785	VINOD SINGH VINOD SINGH	DELHI	DELHI	PREET VIHA PREET VIHA	12
<u>GLN</u>	1816131	CHANDRASHEKHAR DAS AVINASH KUMAR SUMAN			PREET VIHA	6
		SUNITA GARG KULTAJ KATARIA	DELHI	DELHI DELHI	PREET VIHA SEC-14-GRG	55
GLN	1613182	KULTAJ KATARIA SUNIL KUMAR	DELHI	DELHI DELHI	SEC-14-GRG SEC-14-GRG	12
GLN GLN	1613202 1902462	SUNIL KUMAR SUNIL KUMAR		DELHI DELHI		12
GLN	1926365	SUNIL KUMAR PAYAL TANEJA		DELHI DELHI	SEC-14-GRG SEC-14-GRG	22
GLN GLN	1829417 1712225	PAYAL TANEJA RAAJ KAPUR	DELHI DELHI	DELHI DELHI	SEC-14-GRG	21
GLN	1709310 1697790	JYOTI .	DELHI	DELHI DELHI	SEC-14-GRG SEC-14-GRG	17
GLN	1875865	AMAN GUPTA MUKUL .	DELHI	DELHI DELHI	SEC-14-GRG TILAKNAGAR	14
GLN	1830629	MOHAMMED AMIN MOHAMMED AMIN	DELHI	DELHI DELHI	TILAKNAGAR	27
GLN	1834192	MOHAMMED AMIN MOHAMMED AMIN	DELHI	DELHI		13
GLN	1527855	HASMAT IDRISH SEEMA GUPTA	DELHI	DELHI	TILAKNAGAR TILAKNAGAR TILAKNAGAR	14
GLN	1836083	SEEMA GUPTA MANISHA SHARMA	DELHI	DELHI	TILAKNAGAR TILAKNAGAR VIKASPURI	18
GLN	1873806	MANISHA SHARMA	DELHI	DELHI	VIKASPURI	13
GLN	1854854	RANJAN RAWAT GAURAV SHARMA	DELHI	DELHI	VIKASPURI YAMUNAVIHA	3
GLN	1871972	GAURAV SHARMA GAURAV SHARMA	DELHI	DELHI	YAMUNAVIHA YAMUNAVIHA	- 4
GLN	1841660	MOHD ALI PAWAN KUMAR SHARMA	DELHI	DELHI	YAMUNAVIHA YAMUNAVIHA	4
GLN	1744466	MOHD DANISH CHANDER BOSE	DELHI	DELHI	YAMUNAVIHA YAMUNAVIHA	2
GLN	1949923		DELHI	DELHI DELHI	YAMUNAVIHA YAMUNAVIHA	
GLN	1298008		DELHI		DARIYAGANJ	4
GLN	1217304	DHARMENDRA KUMAR ANAND KUMAR	DELHI	DELHI DELHI	DARIYAGANJ FARIDBDNIT	2
GLN	1850330	RAJKUMAR . MOHD SALEEM	DELHI	DELHI DELHI	FARIDBDNIT GHAZIABAD	3 17
GLN GLN	1844789 1265528	ANUJ SAINI SAVITA .	DELHI	DELHI DELHI	KALKAJI KAROLBAGH	19 5
GLN	1265870		DELHI	DELHI DELHI	KAROLBAGH LAZPAT NGR	6 8
GLN	1864451	UDHISHTER KHATRI ARUN SHARMA	DELHI	DELHI DELHI	LAZPAT NGR LOKVIHAR	1′
GLN		NAVIN KUMAR SINGH		DELHI DELHI	LOKVIHAR LOKVIHAR	ě
GLN	1941627		DELHI		LOKVIHAR MAYURVIHAR	1
GLN	1854540	SUDAM PRADHAN VINOD BASISTA	DELHI	DELHI	NFCOLONY	27
GLN	1887445	VINOD BASISTA	DELHI	DELHI	NFCOLONY NFCOLONY	
GLN	1918161	VINOD BASISTA VINOD BASISTA	DELHI	DELHI	NFCOLONY NFCOLONY	
<u>GLN</u>	1882417	ANJALI SINGH ANJALI SINGH	DELHI	DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	_
GLN GLN	1191624 1194998	SHABANA ASHFAQUE SHABANA ASHFAQUE	DELHI DELHI	DELHI DELHI	NOIDA S-18 NOIDA S-18	31 26
GLN	1262211	NIYAJ ANSARI CHARANJIT SINGH JODHKA	DELHI	DELHI DELHI	NOIDA S-18 PASHCHIM V	1 31
GLN	1394476 1848040	CHARANJIT SINGH JODHKA RAVI MAKAN	DELHI DELHI	DELHI DELHI	PASHCHIM V VIKASPURI	18 2
		MOHAMAD IQBAL		DELHI	YAMUNAVIHA	2

The cost of the auction process will be debited to the customer account. Bank reserves the right to recover the balance amount from the customer if the bid amount is insufficient to neet the payoff amount of the account.

For any further details regarding the terms and conditions of the auction. It's mandetory to diposit security money(EMD) DD of Rs. 3.00 Lac, You are required to contact the below

Kotak Mahindra Bank Ltd. (Mr.Rajesh Sardar) Email-rajesh.sardar@kotak.com Ph-09560355818

## f businessstandardhindi bshindi

hindi.business-standard.com

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act,) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules), In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, none again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice will the date of payment. The detail of theBorrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards read-wement of loan amount are as under-

date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-					
Name of the Borrower(s). /Guarantor (s)	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)			
Mrs. Poonam Rani, (Prospect No. 931221)	5,61,879.00/- (Rupees Five	All that piece and parcel of the property being: H.No-C-862, Admeasuring 30 Sq Mtrs., Sector-4-C, Shatabdi Nagar, Meerut, 250001 Uttar Pradesh India			

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers.For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: FN-01,1st Floor, Star Plaza, Near Bachcha Park, Begum Bridge Road, Meerut - 250001/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Meerut Date: 09.07.2021 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd Place: Meerut Date: 09.07.2021

## Prakash Industries Limited

## CIN: L27109HR1980PLC010724 Registered Office: 15 Km. Stone, Delhi Road, Hissar-125044 (Haryana)

#### NOTICE

Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Prakash Industries Limited will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, the 29th July, 2021 at 12.30 p.m. in compliance with the MCA and SEBI Circulars issued in respect of continuing Covid-19 pandemic.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 and applicable rules made thereunder and as amended the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 with Notice setting out the businesses to be transacted at the AGM alongwith the Explanatory Statement have been sent through e-mail on 5th July, 2021 to those members who have registered their e-mail address with the Depositories Company. The Integrated Annual Report is also available on the Company's website www.prakash.com and websites of Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Company has provided the remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to the members of the Company to cast their vote through remote e-voting on the resolution(s) set out in the Notice.

#### All the Members are hereby informed that:

Place: New Delhi

r. Bijendra Singh Yadav

Dated: 05-07-2021

- (i) the Special Business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through Voting by electronic means;
- (ii) the remote e-voting facility period begins on Monday, the 26th July, 2021 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, the 28th July, 2021 (5.00 p.m.). The members who have cast their votes by remote-voting prior to the AGM may also attend and participate in the proceedings of the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again:
- (iii) the members can opt only one mode of voting i.e. remote e-voting or venue voting through VC/OAVM at the AGM;
- (iv) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, 22nd July, 2021 and any person, who acquires the shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 22nd July, 2021 also eligible for voting by electronic means
- (v) the detailed procedure and instructions for e-voting is provided in the notes forming part of the Notice of AGM;

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 21st July, 2021 to Saturday, 24th July, 2021 (both days inclusive).

In case of any queries/grievances with regard to e-voting, kindly contact - Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, 25th Floor, A Wing Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013, E-mail id helpdesk.evoting@cdslindia.com or Ph.No.+91-22-23058542/43 or Company Secretary at investorshelpline@prakash.com Ph.No.+91-11-25305800 or refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under Help section.

By Order of the Board For Prakash Industries Limited Ashwini Kumar (Company Secretary)

## Coforge Coforge Limited (erstwhile NIIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Ph: 91 (11) 41029297 Fax: 91 (11) 26414900
Email: investors@coforgetech.com Website: https://www.coforgetech.com NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company

for the	for the issuance of duplicate share certificate:						
Folio Name of the No. Registered holder		Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares			
643	DIMPLE A SINGH JT1 AMARJIT SINGH	652	10701245 - 10701412	168			
644	AMARJIT SINGH JT1 DIMPLE A SINGH	653	10701413 - 10701749	337			

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner

For and on behalf of Coforge Limited Name of the

Borrower/

(erstwhile NIIT Technologies Limited) Dated : July 08, 2021 Lalit Kumar Sharma Company Secretary & Legal Counsel

RELIANCE HOME FINANCE LIMITED

Branch Office: A-13/1, Block –A,6th Floor, Synergy Tower, Sector-62, Noida-201301 Regd. Office at 11th Floor, The Ruby, Plot No. 29, Ruby Mills Compund, Senapati Bapa Marg, Dadar (West), Mumbai 400 028

## POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the Reliance Home Finance .imited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under section 13(2) read with ule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a **Demand Notice dated 21ST** August, 2020 calling upon the borrower (s) /Co-borrower(s): (1) Nippun Gupta and (2) Anurag Gupta at 100, Shivalik Duplex Flat, Sector-35, Noida-201301 also both at Plot-No GF 03, Tower No-14, Flat No (14. GF-1), Ground Floor, ATS Greens Paradiso Sec-CHI-4 District Gautam Budh Nagar, Greater Noida-201308 vide Loan Accoun No.RHHLDEL000006522 to repay the amount mentioned in the notice being Rs.4,90,74,911/ Rupees Four Crore Ninety Lakhs Seventy Four Thousand Nine Hundred and Eleve only) as on 12th August, 2020 against Loan Agreement within 60 days from the date of receip of the said notices. The Borrower(s)/Co-borrower(s) having failed to repay the amount, notice is pereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower and the public in general that the undersigned has aken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred or nim/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 7th July, 2021. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Reliance Home Finance Limited for a total amount Rs. 5.22.16.989/- (Rupees Five Crore Twenty Two Lakhs Sixteen Thousand Nine Hundred and Eighty Nine Only) as on 6th July, 2021 against respective Loan Agreement. The Borrower/co-borrowers/Mortgagor(s) attention is invited to the provision of Section 13(8) of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

#### Description of immovable Property

All the piece and parcel of property bearing Plot-No GF 03, Tower No-14, Flat No (14. GF-1) Ground Floor, ATS Greens Paradiso Sec-CHI-4, District Gautam Budh Nagar, Greater Noida

Place: GREATER NOIDA Sd/- Authorised Officer

Ideas create values prote

Date: 09.07.2021

## RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

Demand Amount

Regd. Office : P-14 45/90, P-Block, First Floor, Connaught Place, New Delhi –110001. Central Office: 1st Floor, Prius Global Tower, A-3,4,5, Sector-125, NOIDA-201301 Phone: +91 120 3391000

Date of



NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 We the Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. through our Authorised officer has issued Demand Notice U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. The Contents of the same are the Defaults Committed by you in the payment of installments of principal interest etc. The outstanding amount is as mentioned below.

Mailing Address

	OU DUITOWCI		Notice	Availou	AUL NULIUG		
-	1. Karamveer Munshiram S/o Munish Ram 2. Suman Karamveer	XMHDLXM 00074396 (Application ID 659604)	21.05.2021	Rs. 7,00,000/-	Rs. 7,82,741.94/- (Rs. Seven Lakh Eighty Two Thousand Seven Hundred Fourty One Paise Ninety Four Only)	Nagar, Sadatpur, Delhi-110094.	All that piece and parcel of Flat No FF-2, L.I.G First Floor Without Roof Right Residentinal Plot Kh. No.353 Area Mesuring 30.19 Sq.mtr. i.e. 325 Sq Feet Village Sadullabad Pargana & Tehsil Loni & Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2	1. Prianka Singh S/o Ram Parmar 2. Jayram Raghunath Singh	XMHDLXM 00109227 (Application ID 698112)	21.05.2021	Rs. 8,00,000/-	Rs. 9,43,193.10/- (Rupees Nine Lakh Fourty Three Thousand One Hundred Ninety Three Paise Ten Only)		One Kitchen, One Toilet Cum Bathroon Alongwith Easements Attached Thereto i.e. Rights to Instal /inspect/ Repair T.V. Antena And Overhead Water Tank On Top of Terrace and Right to Use Common Passage and Staircase For Approach From
	1. Shashi Saini S/o Shiv Charan Saini 2. Dattatray Tukaram More	XMHDLXM 00075533 (Application ID 663533)	21.05.2021	Rs. 19,00,000/-	Rs. 24,64,272.36/- (Rupees Twenty Four Lakh Sixty Four Thousand Two Hundred Seventy Two Paise Thirty Six Only)	Add: 1- Flat No. 103, Upper Ground Floor, Himalayan IT, Village-Bhangel Begumpur, Tehsil-Dadri, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201304. Add: 2- Sweta Trading & Co., At Shop No-1 Tyagi Mkt Opp-kanya Inter College Main Dadri Road, Bhangel Noida, Uttar Pradesh- 201304.	All that piece and parcel of A Residential Free Hold Built Up Flat No. 103, Upper Ground Floor, Having Its Super Area 700 Sq. Ft. (approx) i.e. 65.02 Sq. Mtrs. 2 BHK Consisting of One Drawing Dining, Two Bedrooms, Two Toilets Cum Bathrooms, One Kitchen (without Roof Right) Residency" At Village-bhangel Begumpur, Tehsil-Dadri, Distt. The Said Building Known "Himalayan IT" Residency in as Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Vide Their Khata No.00127 (Zero Zero One Two Seven) Khasra No. 73m (Seven Three M) And Bounded By: East: -As Per Site Plan, West: -As Per Site Plan, North: - As Per Site Plan, South: - As Per Site Plan
-	1. Sumit Kumar S/o Viran Singh 2. Dheer Singh	XMHDLXM 00075347 (Application ID 660455)	21.05.2021	Rs. 12,00,000/-	Rs. 12,97,015.33/- (Rupees Twelve Lakh Ninety Seven Thousand Fifteen Paise Thirty Three Only)	Add: 1- H. No. 105, Pran Gari, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001. Add: 2- House No. 623 (684/57), Out of Old House No. 542, Maliwada, Ghaziabad, Uttar Pradesh Add: 3- Shop No. 60-61, Ghanta Ghar, Sabji Mandi, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001.	All that piece and parcel of Freehold Residential House No. 623 (684/57), Half Share Northern Side 50 Sq. Yds 41.81 Sq Mtrs Out Of Area Measuring 100 Sq. Yds., Half Share Northern Side Situated At Maliwada, Ghaziabad Tehsil And Distt Ghaziabad, Uttar Pradesh And Bounded By:- East:-House Of Mr. Chhida, West:- Gali 4 Ft. Wide, North:- House Of Mr. Gaje Singh, South:- Property Other

urther with reasons, we believe that you are evading the service of Demand Notice. Hence this publication of demand notice. You are hereby called upon to pay Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. with in a-period of 60 days of date of publication of this demand notice the aforesaid amount along with further interest, cost, incidenta expenses, charges etc. falling which Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. will take necessary action under all or any of the provision of Sec 13(4) of the said Act against all or any one or more of the secured assets including taking possession of this secured assets of the borrower/s Further you are prohibited U/S 13(13) of the said Act from

rring either by way of sale/lease or in any other way the aforesaid secured assets. Please note that no further demand notice will be issued. **Authorised Office** Place : Delhi, Date : 09.07.2021 M/s Religare Housing Development Finance Corporation Limited

YES // BANK

Registered Office: YES BANK House Off Western Express Highway, Santacruz

Sd/- Authorized Office

For Edelweiss Housing Finance Limited

### (East), Mumbai - 400055 PUBLIC AUCTION OF GOLD SECURITY PLEDGED

The borrower, in particular and the public, in general, are hereby notified that public auction of gold ornaments/security pledged in the below accounts is proposed to be conducted. The auction is of the gold ornaments /security of borrowers who have defaulted to pay, as per the terms of Loan Agreement signed & accepted by them, despite notices by YES BANK Limited (the "BANK") to clear the loan dues. The Bank had also issued notice to the borrowers whereby, 7 days' time was given to repay the entire outstanding dues in the below accounts, failing which Bank would be at liberty to auction the entire pledged gold security without issuing further notice. The borrowers have neglected and failed to make payment, therefore, bank in exercise of its rights under the loan agreement as a pledged has decided to enforce the pledged over gold security by selling the gold rnaments/security by way of auction and recover the dues owed by borrowers to the Bank

Customer Name | Branch Name | Location | Date of Loan | Closure Amount | Auction Date Loan No GLN008500684164 Sumita Mishra Atta New Delhi 08-Oct-20 1.70.928 15-Jul-21 New Delhi 14-Aug-20 GLN008500659623 Sandeep Tawar 30.006 15-Jul-21 Atta GLN008500750446 Pawan Kumar Yadav Atta New Delhi 18-Jan-21 15-Jul-21 5,34,515 GLN005500670626 Vikram Kumar Green Park New Delhi 11-Sep-20 2.77.595 15-Jul-21 GLN003000756790 Raman Kumar Rai Rajouri Garden | New Delhi | 27-Jan-21 1,93,675 15-Jul-21

The auction will be conducted on our empaneled online portal https://gold.samil.in post 15th July,2021.

Fhe auction shall be conducted on an \*AS IS WHERE IS\* and the \*AS IS WHAT IS \* basis and the BANK is no making and shall not make any representation or warranties as regards the quality, purity, caratage, weight or valuation of the said gold ornaments, it shall be the sole and absolute responsibility of the potential purchasers to verify, examine and satisfy themselves about the quality, purity, caratage, weight or valuation of the said gold ornaments prior to placing their bids and for such purpose it shall be open to potential purchasers to examine, at their sole cost and expense, and at the address set out hereinabove, the gold ornaments whether with or without expert advice 45 minutes prior to the time stipulated for the conduct of the auction . All bids shall be subject to such minimum reserve price as the Bank may deem fit to fix in this regard. The auction process and the sale (if any) pursuant to such auction shall be subject to such further terms and conditions at the sole discretion of the Bank. I the borrower (s) mentioned above pays the amount dues outstanding against his loan account in full before the auction, bank may withdrawn the loan from the said auction without any further notice. Please note that it is absolute discretionary power of the undersigned authorized officer of the Bank, either to postpone or to cancel the auction proceedings without prior notice and without assigning any reason including right to reject any or all the bids or offers without assigning any reason for same Sd/- (Authorized Officer)

Place: Delhi, Date: 09.07.2021

अचल सम्पत्तियों का विवरण

व धरोहर राशि तथा

### DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act. 2002 (th Under Section 13(2) of the Securisation And Reconstruction of the Inflactal Assets And Enforcement of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules), in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IFL Home Finance Ltd. (IFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of theBorrower(s),

amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-				
Name of the Borrower(s). /Guarantor (s)	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)		
Mr. Satya Narain Singhal, Mrs. Anju Singhal, Singhal Cables Industries (Prospect No. IL10085173)	05-July-2021 Rs. 30,79,893.00/- (Rupees Thirty Lakh Seventy Nine Thousand Eight Hundred Ninety Three Only)	All that piece and parcel of the property being: Unit no.001 Plot no.C-023, GF area admeasuring 100 sq.yrds ,Type F on Khasra no.802, Shouryapuram Shahpur Bhamela situated at Ghaziabad, Uttar Pradesh,India.		
Mr. Arjun Singh, Mrs. Laxmi Negi, (Prospect No. IL10085725)	<b>05-July-2021 Rs. 8,47,681.00/-</b> (Rupees Eight Lakh Forty Seven Thousand Six Hundred Eighty One Only)	All that piece and parcel of the property being: EWS Flat no.176 TF area admeasuring 30 sq.mtr situated at Block D, Sector 3, Greater Noida, Uttar Pradesh, India.		
Mr. Pankaj Malhotra, Mrs. Babli Rani, Mrs. Pooja Malhotra (Prospect No. 938489 & 914500 & 911115)	05-July-2021 Prospect No. 938489 Rs. 5,92,391.00¹- (Ruppes Five Lakh Ninely Two Thousand Three Hundred Ninely One Only) Prospect No. 914500 Rs. 7,49,258.00¹- (Ruppes Seven Lakh Forly Nine Thousand Two Hundred Fifty Eight Only) Prospect No. 911115 Rs. 21,20,117.00¹- (Ruppes Twenty One Lakh Twenty Thousand One Hundred Seventieen Only)	Property, Upper Ground Floor, Front Side, Without Roof      Rights, measuring 100 sq ydsa, Plot No.121 Khasra      No.452 Wilage Nawada, Majra Hastsal Colony Knowns As      Mohan Garden Extn, Block West East Area Uttam Nagar ,      Delhi, 110059, India		
Mr. Rajveer, Mr. Vimlesh, (Prospect No. 937348)	<b>05-July-2021 Rs. 11,73,810.00/-</b> (Rupees Eleven Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Ten Only)	All that piece and parcel of the property being: Flat NO. FF-3, on First Floor (Rear RHS), Area measuring 32.51 Sq Mtrs., Plot NO. F-53, Block-F, out of Khasra No. 1305, SLF Yed Yihar, Loni, Ghaziabad, U.P.		
Mr. Arjun Verma, Mrs.Vandana ( <b>Prospect</b> <b>No.</b> 899421)	06-July-2021 Rs. 22,60,645 /- (Rupees Twenty Two Lakh Sixty Thousand Six Hundred Forty Five Only)	All that piece and parcel of the property being: 2Nd Floor, Back Side, with roof right, admeasuring 53 sq. yds., built on portion of Plot No. 153, 154-A And 154-B, Part of Khasra No. 29, situated in the area of Vill. Nawada Majra Hastal, Laxmi Vihar Colony, Gali No-7, Jain Road, Uttam Nagar, West Delhi, 110959, India		

All that piece and parcel of the property being: Prop No.180, admeasuring 100+50+50 sq. yds. i.e., 200 yds (1800 sq. ft..), out of Kh No-51 Min, Budha Vihar, Village Akberpur, Behrampur Pargana Loni, Tehsil And Dist Ghaziabad, 201009, Uttar Pradesh, India 6-July-2021 Prospect No. 927943 Rs. ,75,210/- (Rupees Five Lakh Seventy ive Thousand Two Hundred Ten Only) rospect No. 905823 Rs. 21,80,065/-Mohit Kirana Store, Mrs.Mukesh Vati Prospect No. 927943, 905823 & 910356) (Rupees Twenty One Lakh Eighty Thousand Sixty Five Only) **Prospect No. 910356 Rs. 2,10,698** /- (Rupees Two Lakh Ten Thousand Six Hundred Ninety If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets unde

Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers.For, further letails please contact to Authorised Officer at Branch Office : A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar 201301 and Office No.1, First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plot No. C -1, Sector -4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010 and Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi/o Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Delhi, Noida, Ghaziabad Date: 09.07.2021 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

## Office of the Executive Engineer PMGSY Division Bandipora **NOTICE INVITING e-TENDERS**

NIT NO:01/EE/PMGSY/Bla/e-tendering of 2020-21 dated 05-07-2021 For and on behalf of the Government of Jammu & Kashmir, Executive Engineer PMGSY Division Baramulla invite e-tenders on Item Rate Basis for the following works including its maintenance as per PMGSY / MORTH

guidelines from the eligible & approved contractors of J&K State Govt. CPVVD, Railways and other States.									
S. No.	ame of Work with ackage No.	Tendered Cost including GST (Rs in Lacs.)			nent :)	etion	_	e of lers Bid)	Class of
	· ·	Renewa Part I	Maintenance Part	Total	Cost of document (Rs In lacs.)	Time of completion	Tender Call	Time and Date opening offende online(Technical	contractor
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Renewal coat / Macadamisation and maintenance of road from Venkura to Kammer, Package No. JK03-08, Length 8.0Kms								"A" Class in PWD or Equivalent in CPWD/ Railways and other state
1	PMGSY Division Baramulla	ľ	l	i l					Governments

. The Bidding documents can be downloaded from the website www.pmgsytendersik.gov.in from 06-07-2021 (11:30 AM) to 26-07-2021upto 04:30PM, 2. The Bids shall be deposited in electronic format on the website www.pmgsytendersik.gov.in froi 10-07-2021 (10:00 AM) to 26-07-2021 upto 04:30 PM. The bid uploaded on the Website upto due date and time will be oper online on 27-07-2021 at 11:00 AM inthe presence of the bidders who wish to attend. If the office happens to be closed on the date of opening of the bid as specified, the bid will be opened on the next working day at the same time and venue. 3. The complete bidding process will be online. 4.Cost of Bid Form is Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) per package (non-refundable) only in the form of Demand Draft in favour of Accounts Officer PMGSY Kashmir payable at Srinagar. 5. The bidders are requested t quote their rates excluding GST. GST @12% shall be added to the contract value by the allotting authority at the time of issue of allotment. 6. A Pre-bid meeting will be held on 09-07-2021 at 11:00 AM in the Office of Executive Engineer PMGSY (JKRRDA) Division Baramula to clarify the issues and to answer questions on any matter that may be raised at that stage as stated in Clause 9 of instruction to bidders of the Bidding documents. The intending Bidders, before attending the Pre-bid meeting, are advised to visit the site of work and acquaint themselves with the siteconditions. It has been made mandatory for all the intending bidders to participate in the pre-bid meeting on the scheduled date and time. 7. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website www.pmgsytenders.gov.in. The bidder would be equired to register in the website which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have valid Digital Signatur Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytendersjk.gov.in. 8.Bids must be accompanied by cost of document and bid security declarationin the form as specified in the Bidding Document. The Demand Draft on account of cost of bidding document shall be pledged to Accounts Officer PMGSY Kashmir payable at Srinagai The bid security declaration should be submitted as per format available in the Standard Bidding Document duly attested by the First Class Magistrate. 9. TheHard Copy of original instruments in respect of cost of bidding document, bid security declaration Bank Credit facility and original copy of affidavits must be delivered in the office of Executive Engineer PMGSY Division Baramulla on a date not later than three working days after the opening of technical qualification part of the bid either by Registered Post of by hand failing which the bids shall be declared non-responsive, 10. The bidders are advised to upload the require mation strictly as per the formats given in Section 3-Qualification Information. The bidder who fails to comply with the said instructions shall be declared as non-responsive. 11. The date and time of opening of Financial-Bids shall be notified or Web Sitehttp://pmgsytendersik.gov.in. This is conveyed to the bidders automatically through an e-mail message on their e-ma address. The Financial-bids shall be opened accordingly online on same Web Site at the Office of Executive Engineer PMGSY Division Baramulla. 12. Other details can be seen in the bidding documents. Note:-The intending bidders are advised to study the entire bidding document before preparation and submission of their bids. This includes clause 3 (Eligible Bidders). 4 (Qualificatio of Bidders) of ITB (Instruction to Bidders). Appendix to ITB, Section 3 (Qualification Information). Contract Data to G.C.C. & Section 7 of Bidding Document. No:- EE/PMGSY/Bla/e-Tendering/1245-78

DIPK-4275/21

**Executive Engineer GSY** 

Mr. Shobhan Chatterjee (Co-Borrower) Flat No. H-402, Bptp Park, Grandeura, Sector-82, Khari Kalan (113) Faridabad-121004 Mr. Swarup Chatterjee (Co-Borrower) Flat No. H-402, Bptp Park, Grandeura Near Community Center, Sector-82, Khari Kalan (113) Faridabad-121004 LAN. NO. LDEL0HL0000024347 Loan Agreement Date: 29-Apr-2017 Loan Amount : Rs.71,50,000/- Demand Notice : 27-05-2021 Amount Due: Rs.74.44.527.65/- (Rupees Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Seventy Four Lakhs Forty Four Lakhs Four Lakhs Four Lakhs Forty Four Lakhs and Sixty Five Paisa Only ) With further interest from the date of Demand Notice Details of the Secured Asset: All That Part And Parcel Of The Property Bearing Flat No. 1703 & 1704, 16th Floor, Tower T, Blue Beech 1, Savana Rps City Sector -88, Faridabad-121004 Total Super Area 2426 Sq. Ft. East: Na, West: Na orth: Na. South: Na. ou the above Borrower/S are therefore called upon to make payment of the outstanding dues as mentioned hereinabout n full Within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the SARFAE-SI act to enforce the above mentioned securities. Please note that as per Section 13(13) of The Said Act, You are

<u>DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002</u>

NPA). The Demand notice was issued to them under Section 13(2) of The Securitisation and Reconstruction of Financi

Details of the Borrowers. Securities. Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amou

M/S. Esquire Technologies Pvt. Ltd. (Borrower) Plot No. 40 & 51, Hsidc, Sector-59, Faridabad-121004

asset and Enforcement of Security Interest Act 2002(SARFAESI Act) on their last known address. In addition to said

cilities obtained by them from the EHFL and the said loan accounts have been classified as Non-Per

laimed there under are given as under:

Name and Address of the Borrower, Co Borrower, Guarantor And Loan Amount:

Mrs. Mala Chatteriee (Co-Borrower) Mr. Partha Sarathi Chatteriee (Co-Borrower)

Both at: Esquire Technologies Pvt. Ltd. Plot No. 40 & 51, Hsidc, Sector-59, Faridabad-121004

**EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED** 

gistered Office Situated At Edelweiss House, Off. C. S. T Road, Kalina, Mumbai - 400 098

Regional Office Address: - Ground Floor, Tower 3, Wing B, Kohinoor City Mall,

SALE NOTICE

estrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent

#### **LEEL Electricals Limited** (Under Corporate Insolvency Resolution Process)

Resolution Professional (RP): Mr. Gangaram Agarwal RP's Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-I, New Delhi -110048. Email: assetsale2@aaainsolvencv.in, leel@aaainsolvencv.com IBBI Regd. Mail Id: ganga.manjuagarwal@gmail.com Contact No.: Mobile No.: +91 8800865284 (Mr. Wasim/Mr. Puneet Sachdeva) (011-46664615- Megha)

> E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 23.07.2021 at 12.00 PM to 02.00 PM (With unlimited extension of 5 minutes each) Sale of Assets owned by LEEL Electricals Ltd. (Under Corporate Insolvency Resolution Process)

Under regulation 29(1) of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporat Persons) regulation, 2016, being the part of the asset in possession and control of the Resolution Professional, appointe by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://aaa.auctiontiger.net.

ASSET	BLOCK	RESERVE PRICE	EMD Amount	Bid Increment Value
Car: Audi A4 (2011 Model) (Delhi Registration) (Diesel) Registration No. DL3CBV1898	Block A	1,70,000/-	17,000/-	5,000/-

Ferms and Condition of the F-auction are as under

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/S E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger).

The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://aaa.auctionidger.net. Contact: Mr. Tilak Maratha at +91-6351896834/07961200580/34 & tilak@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net/ (On going to the link https://aaa.auctiontiger.net interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (i) Company's name (LEEL Electricals Limited), or by, (ii) State

The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the title of asse formalities with the Statutory and/or local authority, if any required.

The assets mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting Mr. Wasim: +91-8800865284 on or before 19.07.2021.

The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the Account of "LEEL ELECTRICALS LIMITED" Caccount No: 38246747586, State Bank of India, IFSC Code: SBIN0004109, SAM Branch, Connaught Place, New Delhi, 110001, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of "LEEL Electricals Limited" on or before 21.07.2021.

The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit and Reguest Letter for participation in the E-Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure II, the formats of these Annexures can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the RP or by E-mail, at the address given below before 5:00 PM of 21.07.2021. Interested bidders will have to upload their KYC documents along with the EMD submission details on https://aaa.auctiontiger.netbefore 5:00 PM of 21.07.2021

The Name of the Eligible Bidders will be identified by the Resolution Professional to participate in e-auction on the portal (https://aaa.auctiontiger.net). The e-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by

In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically ge price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the RP.

The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The RP will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount - EMD Amount) within 15 days of issuance of the LOI by the RP. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder.

0. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the local taxes, duties rates, assessment charges, fees etc. in respect of the property put on auction.

The Resolution Professional has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-

Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. 12. After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the succ

13. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations made thereunder 14. If in case, not more than one bidder deposits the EMD, then in that case the Resolution Professional will have the absolut power to cancel the auction process after the consultation with the stakeholders.

bidder only and will not be issued in any other name.

Date: 09.07.2021

Place: New Delh

15. E-Auction date & Time: 23<sup>rd</sup> July, 2021 from 12.00 P.M. to 02.00 P.M. (with unlimited extension of 5 min).

Ganga Ram Agarwa Resolution Professional in the matter of LEEL Electricals Limited (IBBI Regn. No- IBBI/IPA-002/IP-N00874/2019-2020/12777 Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - I, New Delhi -110048 Email: leel@aaainsolvencv.com, ganga.manjuagarwal@gmail.com

शाखा : बी.डी. रोड़, एलआईसी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपूर-302005 यूको बैंक 👔 UCO BANK फोन: 0141-2223222, ई-मेल:jaibha@ucobank.co.in परिशिष्ट—**IV**क अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु सार्वजनिक नीलामी विक्रय नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथ प्रतिमति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेत सार्वजनिक नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी/निदेशक/जमानतदार को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के पास गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसी है और जो कुछ भी है'' के आधार फ ऋणी / निदेशक / जमानतदार : — (1) मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक हेमन्त पाटनी (i) पता— पाटनी चेम्बर, 39, विद्युत प्रभियंता कॉलोनी, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर—302018, (ii) पता— सी—36, राम गली नं.—6, राजा पार्क, जयपुर—302004 (iii) प्लॉट नं. डी–38, फ्लैट नं. 303, अशोक मिल्बोर्न हाउस, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर (2) हेमन्त पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी (3) सुभाष पाटनी पुत्र श्री भंवर लाल पाटनी (4) श्रीमती मनोरमा पाटनी पत्नी श्री सुभाष चन्द पाटनी (5) श्रीमती रूपाली पाटनी पत्नी श्री जितेन्द्र पाटनी (6) श्रीमती प्रीति पाटनी पत्नी श्री हेमन्त पाटनी (7) श्रीमती अपेक्षा पाटनी पत्नी श्री चेतन पाटनी (8) जितेन्द्र पाटनी पुत्र श्री सुमाष चर्न्द पाटनी, पता—(i) सी—36, राम गली नं.—6, राजा पार्क, जयपुर—302004 पता—(ii) प्लॉट नं. डी—38, पलैट नं. 303, अशोक मिल्बोर्न हाउस, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी—स्कीम, जयपुर (9) नारायण लाल मीणा पुत्र श्री औं कार मीणा, पता— (i) ग्राम— खोघती, तहसील— बस्सी, जिला—जयपुर पता— (ii) 64, वर्धमान नगर विस्तार, आगरा रोड, जयपुर बैंक की बकाया राशि रूपये 6,84,28,167.25 (अक्षरे रूपये छः करोड़ चौरासी लाख अट्ठाईस हजार एक सौ सड़सठ एवं पैसे पच्चीस मात्र) दिनांक 27.04.2018 तक (31.03.2018 तक ब्याज सम्मिलित, भविष्य के ब्याज, लागत एव अन्य खर्चे अतिरिक्त) वसूली हेतु दिनांक 28.07.2021 को बेचा जाएगा। सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि (धरोहर राशि) एवं अन्य जानकारी सम्पत्ति के आगे निम्नलिखित है आरक्षित मल्य

सम्पत्ति के

निरीक्षण की

धरोहर राशि

जमा की अंतिम

दिनांक

सं	. अवल सम्पाताया का विवरण	ानराक्षण का दिनांक व समय	जमा का आतम तिथि व समय	दिनाक व समय	व धराहर साश तथा बोली वृद्धि राशि
1	3674, 3675 वार्ड न. 19, बस स्टेण्ड के पास, चाकसू, जिला— जयपुर में स्थित है जो कि मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. के नाम से है। क्षेत्रफल 19096.97 वर्गमीटर	23.07.2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	28.07.2021 को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. 4,27,78,000/- হু. 42,77,800/- হু. 10,000/- प्रति बोली
2	19, चाकसू, जयपुर में स्थित है जो कि मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. के नाम से है। क्षेत्रफल 2991.16 वर्गमीटर	23.07.2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	<b>28.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. <b>80,16,000/-</b> रु. <b>8,01,600/-</b> रु. <b>10,000/-</b> प्रति बोली
3	<ul> <li>विद्यालय भूमि आदिनाथ नगर— ए, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड,चाकस्, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. के नाम से है। क्षेत्रफल 1166.66 वर्गगज</li> </ul>	23.07.2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	28.07.2021 को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	ਝ. <b>25,66,00</b> 0/- ਝ. <b>2,56,60</b> 0/- ਝ. <b>10,00</b> 0/- प्रति बोली
4	प्लॉट नं. 42, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड़,चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि श्री हेमन्त पाटनी के नाम से है। क्षेत्रफल 115.62 वर्गगज	23.07.2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	28.07.2021 को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. 1,66,500/- रु. 16,650/- रु. 10,000/- प्रति बोली
5	प्लॉट नं. 47, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड़,चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि श्रीमती रूपाली पाटनी के नाम से हैं। क्षेत्रफल 97.77 वर्गगज	23.07.2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	28.07.2021 को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	
6	. प्लॉट नं. 48, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड,चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि श्रीमती रूपाली पाटनी के नाम से है। क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज	23.07.2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	28.07.2021 को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	
7	्लॉट नं. 77, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड़ चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि श्रीमती रूपाली पाटनी के नाम से है। क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज	23.07.2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	28.07.2021 को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. 1,40,500/- रु. 14,050/- रु. 10,000/- प्रति बोली
8	प्लॉट नं. 78, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड • रोड, चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि श्रीमती रूपाली पाटनी के नाम से है। क्षेत्रफल 96.11 वर्गगज	<b>23.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	<b>28.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. 1,40,500/- रु. 14,050/- रु. 10,000/- प्रति बोली
9	मकान नं. 194, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड़, चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. के नाम से है। क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज	<b>23.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	<b>28.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. <b>7,87,000/-</b> रु. <b>78,700/-</b> रु. <b>10,000/-</b> प्रति बोली
10	मकान नं. 195, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड़ चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. के नाम से है। क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज	<b>23.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	<b>28.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. 7,87,000/- रु. 78,700/- रु. 10,000/- प्रति बोली
	मकान नं. 196, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड़. चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. के नाम से है। क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज	23.07.2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	28.07.2021 को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. <b>7,87,000/-</b> रु. <b>78,700/-</b> रु. <b>10,000/-</b> प्रति बोली
	मकान नं. 254, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड़ चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि श्रीमती अपेक्षा पाटनी के नाम से है। क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज	<b>23.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	<b>28.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. 13,18,000/- रु. 1,31,800/- रु. 10,000/- प्रति बोली
	प्लॉट नं. 272, आदिनाथ नगर— बी, वार्ड नं.19 सूरज कुंड रोड़,चाकसू, जिला—जयपुर में स्थित है जो कि श्रीमती मनोरमा पाटनी के नाम से है। क्षेत्रफल 139.79 वर्गगज	<b>23.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक	27.07.2021 को प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक केवाईसी डोक्यूमेंट्स के साथ	<b>28.07.2021</b> को प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक	रु. 2,45,500/- रु. 24,550/- रु. 10,000/- प्रति बोली
Αl	<b>ਸਮ ਰ ਬਾਰੀ:</b> । ਕਿਰਿਟਾ ਸੀਕਰੰਟ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਸੇ ਸਮ ਪਸ਼ੀਟਰ ਹ	पित्र ही ही हाग जो गर्छ	ो शैक प्राप्ता भागताच्याचा	मेर जगान के एथ में	रेग से निविद्यकर्त के गांग

नियम व शर्ते:— 1. निविदा सीलबंद लिफाफे में मय धरोहर राशि डी.डी. द्वारा जो यूको बैंक शाखा मगवानदास रोड, जयपुर के पक्ष में देय हो, निविदाकर्ता के पार दिनांक 27.07.2021 समय सुबह 10:00 से सायं 5.00 बजे तक जमा करानी होगी तथा निविदाएं दिनांक 28.07.2021 को प्रात: 11: 00 से सायं 4:00 बजे तक जपस्थित नेविदाकारों के समक्ष खोली जावेंगी। 2. निविदा लेने व खोलने का स्थान बैंक की उपरोक्त शाखा है। 3. प्राधिकत अधिकारी के पास बिक्री किसी भी समर नेरस्त / स्थिति करने का अधिकार सुरक्षित है। 4. सम्पत्ति निरीक्षण के इच्छुक व्यक्ति प्रथित करने का अधिकार सुरक्षित है। 4. सम्पत्ति निरीक्षण के इच्छुक व्यक्ति प्रथित करने का अधिकार सुरक्षित है। 4. सम्पत्ति निरीक्षण के इच्छुक व्यक्ति प्रथित के श्री आर्मिनीत दयान मो. नं. 9926807767 से कार्य समय म्पर्क करें। 5. निविदा फार्म एवं बिक्री की नियम व शर्ते सम्बंधित प्रपत्र हमारे उपरोक्त शाखा में कार्य समय में प्राप्त करें। अन्य शर्ते बिक्री प्रारम्भ होने के पूर्व बता दें जावेंगी। ऋणियों / जमानतदारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको विक्रय पूर्व सूचना प्रतिभूति–हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (६) के तहर प्रेषित कर दिया गया है। आपके पास उवत सम्पत्ति का उचित मूल्य देने वाला इच्छुक खरीददार हो तो उसे प्राधिकृत अधिकारी के पास सम्पत्ति बिकने से पूर्व लेक दिनांकः 07.07.2021 प्राधिकृत अधिकारी, युको बैंक स्थानः जयपुर